

बिहार विशिष्ट करेंट अफेयर्स दिसंबर 2021

डॉ. राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती : 3 दिसंबर 2021

- भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती 3 दिसंबर 2021 को मनाई गई।
- राजेन्द्र बाबू का जन्म 3 दिसम्बर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले (अब सीवान) के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था।
- राजनीति में शामिल होने के साथ-साथ वे एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और वकील भी थे।
- उन्हें महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी के रूप में जाना जाता था।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
- सन 1962 में अपने राजनैतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से नवाजा गया।
- वे अब तक, देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति हैं।

संसद ने पारित किया फार्मास्युटिकल शिक्षा संशोधन विधेयक

- संसद ने 9 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।
- यह दवा शिक्षा और अनुसंधान के छह और संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रयास करता है, और उनके लिए एक सलाहकार परिषद भी स्थापित करता है।
- ये संस्थान अहमदाबाद (गुजरात), गुवाहाटी (असम), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (तेलंगाना), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में हैं।

BLFA ने बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम JEEViKA के साथ किया करार

- बेटर लाइफ फार्मिंग एलायंस (BLFA), वैश्विक जीवन विज्ञान फर्म बायर के नेतृत्व में, गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम, JEEViKA के साथ करार किया है।
- साझेदारी का उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है।
- इस साझेदारी के तहत, राज्य भर में 2,500 गांवों और 2.5 लाख से अधिक किसानों को समर्थन देने के लिए लगभग 500 कृषि उद्यमी सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

केंद्र ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत (GI) टैग दिया

- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (GIR) ने GI टैग वाले बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका स्वीकार कर ली है।
- इसने उत्पाद के GI अधिकारों की रक्षा के अलावा इसकी उत्पत्ति को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ब्रांड लोगो में संशोधन का भी सुझाव दिया है।
- मिथिला क्षेत्र एक विशिष्ट प्रकार की जलीय फसल मखाना के लिए जाना जाता है, जिसकी पहचान इसकी संस्कृति से होती है।

NHPC ने 9 राज्यों और नेपाल में बनाई 27GW की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की योजना

- NHPC लिमिटेड ने नौ राज्यों और नेपाल में 27,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की नई जलविद्युत और सौर परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- नई क्षमताएं उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्थापित की जाएंगी।
- NHPC के CMD अभय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।
- विद्युत मंत्रालय के अधीन NHPC भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत कंपनी है।

प्रधानमंत्री जन धन खातों ने पार किया 44 करोड़ का आंकड़ा

- केंद्र की वित्तीय समावेशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, PMJDY के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या 44.05 करोड़ थी, जिसमें कुल शेष 1,47,812 करोड़ था।
- उत्तर प्रदेश राज्य की सूची में सबसे अधिक खातों के साथ सबसे ऊपर है, जिसके बाद बिहार का स्थान है।
- PMJDY योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।

सात बार राज्यसभा सांसद रहे महेंद्र प्रसाद का निधन

- जनता दल (यूनाइटेड) के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का दिसंबर 2021 में निधन हो गया।
- संसद के सबसे अमीर सदस्यों में से एक, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक, बिहार से सात बार राज्यसभा सांसद थे और एक बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे।
- प्रसाद पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे।

ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत CESL ने हासिल किया 50 लाख LED बल्ब वितरण

- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की सहायक कंपनी कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्ब वितरित करने की एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
- CESL ने अपनी ग्राम उजाला योजना के प्रोजेक्ट करोड़ के तहत यह लक्ष्य हासिल किया, जिसे बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण परिवारों में लागू किया जा रहा है।

बिहार की कैरम खिलाड़ी रश्मि कुमारी ने जीता अपना तीसरा फेडरेशन कप

- दो बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने वाराणसी में अपना तीसरा फेडरेशन कप खिताब जीता है।
- रश्मि कुमारी देश की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं।
- 2012 और 2010 में पिछली जीत के बाद यह उनकी तीसरी फेडरेशन कप ट्रॉफी थी।
- रश्मि ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन एस. अपूर्व को हराया।
- रश्मि दो बार विश्व कप और चार बार SAARC चैंपियन भी जीत चुकी हैं।

byjusexamprep.com